



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 827 राँची, शुक्रवार

24 अगस्त, 2018 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

14 अगस्त, 2018

संख्या-06/उप.फो.(संरक्षण परिषद् चयन)06/2015खा.आ.-2704,-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5300, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के द्वारा झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। साथ ही इस विभागीय अधिसूचना द्वारा श्री अरविन्द सिंह, ग्राम-सिरहा, पोस्ट-उँटारी रोड, थाना-उँटारी रोड, जिला-पलामू एवं श्री एच.एन. राम, मकान संख्या-301, तृतीय तल्ला, राधा ब्लॉक, हेभन रिभरब्यू, हरिओम नगर, रोड नम्बर-05, आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावाँ, 831013 को गैर सरकारी सदस्य मनोनित किया गया है।

2 विभागीय अधिसूचना संख्या 5300, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 की कंडिका-2 (ख)(vii) में प्रावधान है कि परिषद् की दो लगातार बैठकों में अनुपस्थित होने पर गैर सरकारी सदस्यों को इससे हटाया भी जा सकता है।

3. श्री अरविन्द सिंह एवं श्री एच.एन. राम पिछली दो से अधिक लगातार बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित रहें हैं।

4. उक्त के आलोक में श्री अरविन्द सिंह एवं श्री एच.एन. राम को तत्काल प्रभाव से झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गैर सरकारी सदस्य के पद से पदच्युत किया जाता है ।
5. उपर्युक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

थॉमस डुंगडुंग,
सरकार के उप सचिव ।
